

सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के  
प्रधानाचार्य/संस्था प्रमुख  
(सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से)

विषय: सत्र 2021-2022 हेतु पंजीकरण डाटा अपलोड करने के लिए अंतिम तिथि बढ़ाने के संबंध से

महोदया/महोदय,

यह सत्र 2021-2022 हेतु कक्षा IX एवं XI के लिए छात्रों के पंजीकरण के संबंध में दिनांक 08.12.2021 के परिपत्र के क्रम है।

यह बोर्ड के संज्ञान में आया है कि कुछ स्कूल और माता-पिता विद्यमान स्थितियों के कारण कक्षा IX एवं XI के लिए छात्रों की पंजीकरण प्रक्रिया को पूर्ण करने में समस्या का सामना कर रहे हैं। छात्रों और माता-पिता की समस्याओं को देखते हुए, सीबीएसई ने पंजीकरण डाटा की प्रस्तुति के लिए अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। कक्षा IX एवं XI के लिए पंजीकरण डाटा की प्रस्तुति के लिए सामान्य शुल्क सहित अंतिम तिथि अब 06/01/2022 है।

परिपत्र दिनांक 08/12/2021 में दी गई अन्य निबंधन और शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं है।

गल्फ देशों में स्कूलों के लिए समय सारणी वही रहेगी जैसा परिपत्र दिनांक 10/12/2021 में दिया गया है।

परिशोधित समय सारणी अनुलग्नक- I (परिशोधित) के अनुसार है।

स्कूलों को अब परिशोधित समय सारणी के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया को पूर्ण करने का निदेश दिया जाता है।

(डॉ संयम भारद्वाज)  
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि- वेब व्यवस्थापक को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित

**कक्षा IX/XI में पंजीकरण के लिए शुल्क विवरण**

शुल्क स्लैब	प्रति छात्र दिए जाने वाला पंजीकरण शुल्क (आईएनआर में)				छात्रों के पंजीकरण के लिए समय सारणी	शुल्क भुगतान के लिए समय सारणी
	भारत में		विदेश में			
	IX	XI	IX	XI		
विलंब शुल्क रहित	300/-	300/-	500/-	600/-	15.12.2021 (बुधवार) से 06.01.2022 (बृहस्पतिवार)	पंजीकरण डाटा को अंतिम रूप देने की तिथि +4 दिन
विलंब शुल्क सहित	*2300/-	*2300/-	*2500/-	*2600/-	07.01.2022 (शुक्रवार) से 14.01.2022 (शुक्रवार)	पंजीकरण डाटा को अंतिम रूप देने की तिथि+4 दिन
प्रशिक्षण शुल्क	रु. 10,000/-		रु.50,000/-		---	पंजीकरण शुल्क सहित
खेल शुल्क	रु. 10,000/-		रु.10,000/-		2021-22 के लिए देय नहीं	

\* रु. 2000/- के विलंब शुल्क सहित

- दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों से पंजीकरण शुल्क (IX, XI) नहीं लिया जाएगा।

**विलंब शुल्क की गणना के लिए उदाहरण**

जिस तिथि को डेटा को अंतिम रूप दिया जाता है उसे शुल्क गणना के लिए लिया जाता है।

- क यदि छात्रों का विवरण दर्ज किया जाता है और **02.01.2022** को या उससे पहले अंतिम रूप दिया जाता है, तो स्कूल **06.01.2022** तक बिना विलंब शुल्क के शुल्क का भुगतान कर सकता है। उसके बाद विलंब शुल्क लागू होगा।
- ख यदि छात्रों का विवरण दर्ज किया जाता है और **03.01.2022** को अंतिम रूप दिया जाता है, तो स्कूल बिना विलंब शुल्क के **07.01.2022** तक शुल्क का भुगतान कर सकता है। उसके बाद विलंब शुल्क लागू होगा।
- ग यदि छात्रों का विवरण दर्ज किया जाता है और **04.01.2022** को अंतिम रूप दिया जाता है, तो स्कूल बिना विलंब शुल्क के **08.01.2022** तक शुल्क का भुगतान कर सकता है। उसके बाद विलंब शुल्क लागू होगा।
- घ यदि छात्रों का विवरण दर्ज किया जाता है और **05.01.2022** को अंतिम रूप दिया जाता है, तो स्कूल बिना विलंब शुल्क के **09.01.2022** तक शुल्क का भुगतान कर सकता है। उसके बाद विलंब शुल्क लागू होगा।
- च यदि छात्रों का विवरण दर्ज किया जाता है और **06.01.2022** को अंतिम रूप दिया जाता है, तो स्कूल बिना विलंब शुल्क के **10.01.2022** तक शुल्क का भुगतान कर सकता है। उसके बाद विलंब शुल्क लागू होगा।
- छ विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण के लिए, पंजीकरण डेटा को अंतिम रूप देने की तिथि से +4 दिन उसी तरह लागू होंगे जैसे ऊपर (क) से (च) में दिया गया है।

**नोट:** यह ध्यान दिया जाए कि यदि छात्रों के पंजीकरण के डेटा को **06.01.2022** तक अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, तो विलंब शुल्क लागू होगा। +4 दिनों की समय खिड़की, डेटा को अंतिम रूप देने के बाद केवल शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध है। डेटा को अंतिम रूप देना छात्रों के पंजीकरण डेटा की प्रविष्टि/अपलोड के बाद की गतिविधि है।